

DAILY RAILWAY CAPSULE

One liners –

- ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ऐरन फिच 13 अप्रैल 2018 को किंग्स XI पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के साथ आईपीएल में 7 टीमों से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने आईपीएल करियर की शुरुआत 2010 में राजस्थान रॉयल्स से की थी. इस सीजन से पहले तक फिच दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस और पुणे वॉरियर्स टीमों से भी खेल चुके हैं.
- 19 देशों में शराब का सेवन करने वालों पर हुए एक अध्ययन के मुताबिक, प्रतिदिन निर्धारित सीमा के बाद बीयर का हर पाइंट या शराब का प्रत्येक गिलास 40 वर्षीय शख्स की अनुमानित जिंदगी से 30 मिनट घटा सकता है. बतौर शोधकर्ता, प्रत्येक हफ्ते दो बार 100 ग्राम से अधिक ऐल्कोहल पीने से उम्र 6 महीने तक घट सकती है.
- देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस 13 अप्रैल 2018 को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को पछाड़कर एक बार फिर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई. कारोबार समाप्ति पर टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 6,03,192 करोड़ रुपये हो गया जबकि आरआईएल का पूंजीकरण 5,94,729 करोड़ रुपये रहा. वहीं, पूंजीकरण के लिहाज से एचडीएफसी बैंक (5,00,346 करोड़ रुपये) तीसरे स्थान पर रहा.
- स्वीडन में चलते वाहन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिफाईड ट्रैक वाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए शुरू की गई है. इसके लिए वाहनों में नीचे की ओर एक कनेक्टर इंस्टॉल कराना होगा जो ट्रैक खत्म होते ही खुद-ब-खुद सड़क से अलग हो जाएगा. बतौर रिपोर्ट्स, यह सिस्टम कार्बन डायऑक्साइड का उत्सर्जन 90% तक कम कर सकता है.
- श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाल सीरिसेना ने 12 अप्रैल 2018 को संसद को अगले 8 मई तक के लिए निलंबित कर दिया. दरअसल, श्रीलंका में सीरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी की गठबंधन सरकार है. फरवरी 2018 में हुए स्थानीय चुनाव में नुकसान के बाद से दोनों पार्टियों के बीच संबंधों में तलखी बढ़ी है.
- पांच बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता एम.सी. मैरीकॉम कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं. उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया में जारी खेलों में शनिवार को महिलाओं के 45-48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में क्रिस्टिना ओहारा को हराकर हासिल की. मैरीकॉम के यह पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं.
- हाल ही के दिनों में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े बादाम उपभोक्ता के रूप में उभरते हुए चीन और स्पेन को पीछे छोड़ा है। पिछले साल भारत में बादाम का आयात 7 फीसदी बढ़कर 3,900 करोड़ रुपये रहा, जो 2016 में 3,640 करोड़ रुपये था।

Science -


- प्रकृति से प्राप्त तत्व की संख्या है - 88
- धातु तत्व की संख्या है - 90
- न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है - सीजियम
- सर्वाधिक इलेक्ट्रान बन्धुता वाला तत्व है - क्लोरिन
- सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है - फ्लुओरीन
- सबसे प्रबल ऑक्सीजन पदार्थ है - फ्लुओरीन
- सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग है - शून्य वर्ग
- एक परमाणिक तत्व है - अक्रिय गैस
- मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है - ऑक्सीजन
- मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है - सोडियम
- हड्डियों व दाँतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है - कैल्सियम
- दूध से लैक्टिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक उपयोग होता है - लैक्टिक बैसिली
- ग्लूकोस से एथिन अल्कोहल बनाने में उत्प्रेरक उपयोग होता है - जाइमेल एन्जाइम
- अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक उपयोग होता है - गर्म एलुमिना

RAILWAY

VYAPAM

(LABOUR INSPECTOR)

NEW BATCHES START



**OUR
BRANCHES**

**INDORE -
PALASIYA**
Cont.- 099779-44914
BHANWARKUA
Cont.- 083497-59425

**BHOPAL -
M.P.
NAGAR**
Cont.- 078693-74842

HARDA
Opp. GP Mall
Bus Stand Road
Cont.- 099263-93771

HOSHANGABAD -
Meenakshi Chowk
Above ICICI Bank
Cont.- 078693-74873

KHANDWA -
Grover Plaza
Anand Nagar
Cont.- 099777-02933

GUNA -
Kanha Heights
Above IO Bank
Cont.- 088892-89335

BILASPUR -
Amar Complex
Near Gandhi Chowk
Cont.- 093003-80700

REWA -
Ramagovind Palace
Sirmour Chowk
Cont.- 090396-52859

PINNACLECAREER INSTITUTE For Further Details Please Call Us On- 9039055453, 9977716716

Facebook: Pinnaclecareerinstitute

Website: www.pinnacle.edu.in H.O.: M.G.Road The Heritage 1st Floor, Indore